



# HAMIRPUR POLICE



कोतवाली सदर

दिनांक-19.07.2022

## पुलिस की पाठशाला

आज दिनांक 19/07/2022 को अमर उजाला फाउंडेशन द्वारा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज हमीरपुर में पुलिस की पाठशाला का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक हमीरपुर द्वारा छात्राओं को जागरूक किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा छात्राओं से संवाद स्थापित कर उनके सुरक्षा संबंधित विषयों पर पूछे गए प्रश्नों का जवाब दिया गया पुलिस अधीक्षक हमीरपुर द्वारा छात्राओं को बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति अभद्र टिप्पणी, फोन पर अनावश्यक परेशान करना, छींटाकशी करता है तो उसका डटकर मुकाबला करें, डरे नहीं हमीरपुर पुलिस आपके साथ है। पुलिस अधीक्षक द्वारा सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे विमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अन्य सीयूजी नम्बर, महिला कानून विषयों के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया एवं बताया गया इन नंबरों पर कभी भी आप कॉल करके मदद ले सकती हैं आपकी पहचान को भी सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। थानों पर भी विशेष तौर पर महिला हेल्पडेस्क खोला गया जिसपर आपकी शिकायत सिर्फ महिला पुलिस कर्मियों द्वारा सुनी जाती हैं आप निसंकोच वहां जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। पुलिस अधीक्षक द्वारा छात्राओं को ट्रेफिक नियमों के बारे में भी जानकारी दी गई साथ ही उनसे ट्रेफिक नियमों का पालन करने की अपील की गई व अपेक्षा की गई कि ट्रेफिक नियमों के पालन करने हेतु अपने आस-पड़ोस व पारिवारिक जनों को भी प्रेरित करेंगे। पुलिस अधीक्षक ने अमर उजाला के इस पुलिस पाठशाला कार्यक्रम की तारीफ करते हुए कहा कि ऐसे जागरूकता कार्यक्रम अन्य संस्थाओं को भी करवाने चाहिए। जिससे छात्राएं जागरूक हों सके। इस मौके साइबर सेल हमीरपुर द्वारा भी छात्राओं को साइबर अपराध से बचाव के संबंध में जागरूक करते हुए बताया गया कि अनजान नंबर से काल करके कोई आपको अपना मित्र, रिश्तेदार बताए और गूगल पे, फोन पे या पेटीएम में रुपये भेजने की बात कहे तो समझ लें की ठगी होने वाली है, किसी भी व्यक्ति के साथ ओटीपी, पासवर्ड, पिन नंबर या खाते से सम्बन्धित जानकारी आदि साझा न करें। इस मौके पर इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य व विद्यालय का समस्त स्टाफ मौजूद रहा।

